

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रस्तापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

न० 486]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1968/पोष 6, 1890

No. 486]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1968/PAUSA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 23rd December 1968

S.O. 4645.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6

1.- Indian News Review 267 '91 M No. 1054.	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with news and current events.
--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.	How Food Becomes Fuel (Colour).	299.31 M	Shri T.C. Patel, Prompt Services, Manek Chambers, 2nd Floor, 399-A, Lamington Road, Bombay-4.	Prompt Chambers, 2nd Floor, 399-A, Lamington Road, Bombay-4.	Film intended for educational purposes.
3.	A Message from the President Dr. Zakir Hussain.	53.00 M	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		-do-
4.	Rashtrapati Zakir Hussain Ka Sandesh.	38.00 M		-do-	-do-
5.	Automobile Industries in India.	304.80 M	Shri L.P. Sen, Controller, Hari S. Das Gupta Productions, 6, Southern Avenue, Calcutta.	Sh. Hari S. Das Gupta, Hari Das Gupta Productions, 6, Southern Avenue, Calcutta-26.	Documentary film.
6.	Pinjara	473.66 M	Kantilal Rathod, Ak-ar Films, 89-B, Desai Rd., Bombay 26.		-do-

[No. F.24/1/68-FP App. 1313]

BANU RAM AGGARWAL,
[Under Secy]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1968

एस० ओ० 4646—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अति-नियमनों के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, प्रकीर्ण करते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	अभिदेक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार मीक्षा संख्या 1054।	267.91 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पेडर, रोड बम्बई-26।	समाचार और सामयिक घटनाओं में सम्बन्धित फिल्म।	

1	2	3	4	5	6
2.	हाऊ फुड विक्रमज गूल (क्लर)।	299 3 मीटर	श्री. डी० भी. पनेल शिक्षा सम्बन्धी फ़िल्म प्राप्पट सर्वोसज मानिक चैम्बर्ज, सैकन्ड फ्लोर, 399-ए, लेमिंगटन रोड बम्बई-4		
3	ए० मैसिज फ़ाम वी प्रैजिडेन्ट डा० जाकिर हुसैन।	53.00 मीटर	फ़िल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24- पैडर रोड, बम्बई-26।	शिक्षा सम्बन्धी फ़िल्म	
4.	राष्ट्रपति डा जाकिर हुसैन का संदेश।	8 0 मीटर	फ़िल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24- पैडर रोड, बम्बई-26।	शिक्षा सम्बन्धी फ़िल्म	
5	माटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज टन इन्डिया।	54.80 मीटर	टी.एल.ए. ० सैन, हरि सचिन मराठे कन्ट्रोलिंग गप्ता प्रोड- फ़िल्म। हरि एम० दाम कर्ज, 6, गान्धी रोडकश्मिर्न मदर्न 6, मदर्न एडेन्थ एवेन्यू कलकत्ता-26 कलकत्ता-26।		
6.	पिजरा	473.66 मीटर	कान्ति लाल राथोड, आकाश फ़िल्मज्, 89-बी०, देसाई रोड, बम्बई-26।		

[फाईल संख्या 24/1/68 एफ० पी० परिशिष्ट 1313]

वान राम अग्रवाल, अव्वर सांचा।

